

ଓঁ হিন্দু / English

৩ ২

ନନ୍ଦାନୀ

ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର
ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର

ଓঁ হিন্দু / English

৩ ২

ନନ୍ଦାନୀ

ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର
ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



ନନ୍ଦାନୀ (ହି)

ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର

ଇଙ୍ଗରିଡ ଶେଚ୍ଟର

COWS

ତିନ୍ଦି ଢିଲେ ଜାଗି ମତ୍ତ / Tingi and the


globalstorybooks.net

Global Storybooks



Tingi and the cows

ତିନ୍ଦି ଢିଲେ ଜାଗି ମତ୍ତ



टिन्गी अपनी दादी माँ के साथ रहता था।


...


Tingi lived with his grandmother.

He used to look after the cows with her.

...

አቶ ገብረኤል ተከራካሪ በታደራዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ





एक दिने सिपाही आए।

...

One day the soldiers came.

They crept home very quietly.



...


א גהנָה דְּבָרִים נְאָזֶן

They took the cows away.

...

א גהנָה אֲתָא תַּלְלֵל בְּנֵי מִצְרָיִם






टिनेगी और उसकी दादी माँ भागे और छुप गए।

...

Tingi and his grandmother ran away
and hid.



जब लगा कि वे सुरक्षित हैं, टिनेगी और उसकी दादी
माँ बाहर निकल आए।

...

When it was safe, Tingi and his
grandmother came out.

They hid in the bush until night.



...


א גַּם אָמַתְּךָ תִּלְכֵדְךָ

One of the soldiers put his foot right on
him, but he kept quiet.

...

אֶלְעָזָר אָמַתְּךָ תִּלְכֵדְךָ
תִּלְכֵדְךָ תִּמְצָא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל,






वे सिपाही फिर से वापस आ गए।

...

Then the soldiers came back.



दादी माँ ने टिनेगी को पत्तों के नीचे छिपा दिया।

...

Grandmother hid Tingi under the leaves.